



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अगस्त 5—अगस्त 11, 2012, शनिवार/श्रावण 14—श्रावण 20, 1934  
No. 32] NEW DELHI, AUGUST 5—AUGUST 11, 2012, SATURDAY/SHRAVANA 14—SHRAVANA 20, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं,  
अर्थात् :—

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री प्रमोद कोहली, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय से बाहर की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के-11017/7/2012-यू.एस. I]

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 18th June, 2012

**G.S.R. 199.**—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Permod Kohli, Judge, Punjab and Haryana High Court, who has been appointment as the Chief Justice, Sikkim High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Jammu and Kashmir High Court.

[No. K-11017/7/2012-U.S. I]

SNEHLATA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**सा.का.नि. 200.**—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री विक्रमजोत सेन, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय से बाहर की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के-11017/7/2012-यू.एस. I]

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th June, 2012

**G.S.R. 200.**—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Vikramajit Sen, Judge, Karnataka High Court, who has been appointment as the Chief Justice, Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Delhi High Court.

[No. K-11017/7/2012-U.S. I]

SNEHLATA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**सा.का.नि. 201.**—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री आदर्श कुमार गोयल, जिन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बाहर की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रुपये (रुपये नौ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के-11017/7/2012-यू.एस. I]

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th June, 2012

**G.S.R. 201.**—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Adarsh Kumar Goel, Judge, Gauhati High Court, who has been appointment as the Chief Justice, Gauhati High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Punjab and Haryana High Court.

[No. K-11017/7/2012-U.S. I]

SNEHLATA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**सा.का.नि. 202.**—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री दिलिप बाबासाहेब भोसले, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् बम्बई उच्च न्यायालय से बाहर की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के-11017/7/2012-यू.एस. I]

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th June, 2012

**G.S.R. 202.**—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Dilip Babasaheb Bhosle, Judge, Bombay High Court, who has been transferred to the Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Bombay High Court.

[No. K-11017/7/2012-U.S. I]

SNEHLATA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**सा.का.नि. 203.**—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री मोहिन्दर पाल, जिन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बाहर की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के-11017/7/2012-यू.एस. I]

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th June, 2012

**G.S.R. 203.**—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Mohinder Pal, Judge, Punjab and Haryana High Court, who has been transferred to the Gujarat High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Punjab and Haryana High Court.

[No. K-11017/7/2012-U.S. I]

SNEHLATA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**सा.का.नि. 204.**—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री कंवलजीत सिंह आहलूवालिया, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बाहर की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के-11017/7/2012-यू.एस. I]

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th June, 2012

**G.S.R. 204.**—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Kanwaljit Singh Ahluwalia, Judge, Punjab and Haryana High Court, who has been transferred to the Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties outside his parent High Court, i.e. Punjab and Haryana High Court.

[No. K-11017/7/2012-U.S. I]

SNEHLATA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**सा.का.नि. 205.**—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्रीमती निशिता निर्मल म्हात्रे, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् बम्बई उच्च न्यायालय से बाहर की गई सेवा की अवधि के लिए, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रुपये (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के पात्र होंगी।

[सं. के-11017/7/2012-यू.एस. I]

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 18th June, 2012

**G.S.R. 205.**—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Smt. Justice Nishita Nirmal Mhatre, Judge, Bombay High Court, who has been transferred to the Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight Thousand only) per month, for the period of her service when she performs her duties outside her parent High Court, i.e. Bombay High Court.

[No. K-11017/7/2012-U.S. I]

SNEHLATA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

### जल संसाधन मंत्रालय

#### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2012

**सा.का.नि. 206.**—जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामतः सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति में सहायक अभियंता के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी नियमों को भारत के राजपत्र दिनांक 22-28 मई, 2011 के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 24 मई, 2011 के सा.का.नि. सं. 165 द्वारा प्रकाशनार्थ निम्नलिखित अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ की तालिका अनुसूची के अन्तर्गत कॉलम 12(ख) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं, अर्थात् :—

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या सिंचाई इंजीनियरी या सिंचाई और जल प्रबंधन या जल प्रौद्योगिकी और प्रबंधन या जल-विज्ञान में डिग्री और वृहद सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में योजना और निर्माण में दो वर्ष का अनुभव;

या

सिविल या सिंचाई इंजीनियरी या जल संसाधन इंजीनियरी में डिप्लोमा या जल प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.) और वृहद सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की योजना और निर्माण में पांच वर्ष का अनुभव।

[फा. सं. 37/1/2009-पीआर]

अजय कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES**  
**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 3rd August, 2012

**G.S.R. 206.**—In the English version of the following Notification published in the Gazette of India dated May 22-28, 2011 in Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 165 dated 24th May, 2011 notifying the rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer in Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, a subordinate office of the Ministry of Water Resources, Column 12(b) under the Table Schedule may please be read as follows :—

(b) possessing the following educational qualification and experience, namely :—

Degree in Civil or Irrigation Engineering or Irrigation and Water Management or Water Technology and Management or Hydrology from a recognized University with two years experience in planning and construction of major irrigation and multi-purpose project, or

Diploma in Civil or Irrigation Engineering or Water Resources Engineering or Bachelor of Science in Water Technology and Management with five years experience in planning and construction of major irrigation and multi-purpose project.

[F. No. 37/1/2009-PR]

AJAY KUMAR, Under Secy.

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2012

**सा.का.नि. 207.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विभागीय कैटीन कर्मचारी भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय की विभागीय कैटीन के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विभागीय कैटीन समूह 'ग' कर्मचारी भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता :** वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

28/8/12-2

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अवयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंधक सह-भंडारी	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु. टिप्पण : वह कैटीन में ड्यूटी पर उपस्थित रहने के लिए 250 रु. प्रति माह का विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा/करेगी।	अचयन	21 और 28 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए छूट दी जा सकेगी। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम; या

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य

(ख) बही खाता या भंडार रक्षण में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता

(10)

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

**प्रोन्नति :**

1. ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1,5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ (8) वर्ष नियमित सेवा की हो।
2. ऐसा हलवाई-सह-रसोइया जिसने भंडार या लेखा संभालने के दो वर्ष के अनुभव सहित वेतन 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2000 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और सीधी भर्ती वाले लिपिक अर्थात् वाणिज्य सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण व समतुल्य के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

**प्रतिनियुक्ति :**

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1,5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ (8) वर्ष नियमित सेवा की हो
- (iii) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।

(ख) भंडार या लेखा संभालने का तीन (3) वर्ष का अनुभव हो।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी

**टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता।

1. अवर सचिव (प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष
2. अवर सचिव, महिला और बाल विकास विभाग —सदस्य
3. उप निदेशक (प्रशासन) महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य  
महानिदेशालय
4. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-IV) —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई-सह-रसोइया	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य
(10)	(11)	
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति :</b>  ऐसा सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिसने वेतन बैंड-1,5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b>  केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या  (ii) ऐसा सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिसने वेतन बैंड-1,5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की हो; और  (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो :</p> <p>(i) कैटरिंग में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो  (ii) सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष के अनुभव को वरीयता।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता।
1. अवर सचिव (प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	—अध्यक्ष
2. अवर सचिव, महिला और बाल विकास विभाग	—सदस्य
3. उप निदेशक (प्रशासन) महानिदेशक, आकाशवाणी महानिदेशालय	—सदस्य
4. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-IV)	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों के विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है।



(6)

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख व अंतिम तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

(क) कैटरिंग आदि में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण;

(ख) एक वर्ष का सुसंगत अनुभव;

(ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा स्वच्छता आदि को बनाए रखने सहित भोजन बनाने के लिए व्यवसाय दक्षता परीक्षण।

**टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संच सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य

(10)

(11)

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

**प्रोन्नति :**

ऐसा कैटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1,5200—20,200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की हो।

स्वच्छता बनाए रखने सहित भोजन बनाने की निपुणता के प्रतिनिदेश से विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा व्यवसाय परीक्षण संचालित किया जाएगा।

**प्रतिनियुक्ति :**

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या

(ii) ऐसा कैटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1,5200—20,200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की हो साथ ही हलवाई-सह-रसोइया के हेल्पर के रूप में एक वर्ष का अनुभव हो।

(iii) कैटरिंग में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता ।

- |  |          |
|--|----------|
| 1. अवर सचिव (प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय           | —अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव, महिला और बाल विकास विभाग                      | —सदस्य   |
| 3. उप निदेशक (प्रशासन), महानिदेशक, आकाशवाणी<br>महानिदेशालय | —सदस्य   |
| 4. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-IV)                             | —सदस्य   |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. लिपिक	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, अन्य विशेष प्रवर्ग वर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा में छूट दी जा सकेगी । <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जो कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा विज्ञापित की जाए यदि सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है तो निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाए । आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)

(8)

(9)

- |  |   |   |
|--|---|---|
| (क) वाणिज्य विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य  | आयु : नहीं  | सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |
| (ख) कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द<br>प्रति मिनट की टंकण गति प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी<br>दबाव पर 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति<br>घंटा के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट । | शैक्षिक अर्हताएं : 12वीं कक्षा<br>उत्तीर्ण या समतुल्य | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य          |

(7)

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

**प्रोन्नति :**

ऐसा कैटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1,5200—20,200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की हो।

लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए कैटीन परिचरों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से संघटनात्मक व्यवहार, संचार निपुणता और लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण आवश्यक होगा।

**प्रतिनियुक्ति :**

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या

(ii) ऐसा कैटीन परिचर जिसने वेतन बैंड-1,5200—20,200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में नियमित आधार पर कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की हो; और

स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

- |  |          |
|--|----------|
| (i) अवर सचिव (प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय          | —अध्यक्ष |
| (ii) अवर सचिव, महिला और बाल विकास विभाग                    | —सदस्य   |
| (iii) उप निदेशक (प्रशासन), महानिदेशक, आकाशवाणी महानिदेशालय | —सदस्य   |
| (iv) अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-IV)                           | —सदस्य   |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कैटीन परिचर (पूर्व पद नाम चाय/काफी बनाने वाला/बेयरा/वाश बॉय सफाई वाले की सेवाएं अब से बाह्य स्रोतों से ली जाएंगी)	7* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों के विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा में छूट दी जा सकेगी। <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख व अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)		(8)		(9)	
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य		लागू नहीं होता		दो वर्ष	
(10)		(11)			
सीधी भर्ती		लागू नहीं होता			
(12)		(13)			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता।			
(i) निदेशक (प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय		—अध्यक्ष			
(ii) अवर सचिव (प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय		—सदस्य			
(iii) उप निदेशक (प्रशासन) प्रेस सूचना ब्यूरो		—सदस्य			

[फा. सं. 18/2/2011-प्रशासन-IV]

सरनजीत सिंह बेदी, अवर सचिव (प्रशा.)

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

New Delhi, the 3rd August, 2012

**G.S.R. 207.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information and Broadcasting, Departmental Canteen Employees Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of the Departmental Canteen in the Main Secretariat of the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting, Departmental Canteen, Group 'C' Employees Recruitment Rules, 2012.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column I of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay/pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Assistant Manager-cum-Store Keeper.	1* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 2400 Note : He or She will also draw Special Allowance of Rs. 250 p.m. for attending to duties in canteen.	Non-selection	21—28 years, relaxation of age limit to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.  Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

28/6/97/12-4

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) B.Com from a recognised University; Or (b) Graduate in any discipline from a recognised University with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping.	Not applicable	Two years for direct recruits, Nil for promotees.
<b>Experience—</b> Three years in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. <b>Note 1:</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<b>Promotion :</b> (ii) Clerk with at least eight (8) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1900. (ii) Halwai-cum-Cook with five (5) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 2000 with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk i.e., 12th Class pass or equivalent with Commerce. <b>Deputation :</b> Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with at least eight (8) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1900; and (iii) Possessing educational qualifications as prescribed for Direct Recruits under column 7; and (b) having three (3) years experience in handling Stores or Accounts. <b>Note 1 :</b> The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	

(11)

the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 2 :** The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—**

Not applicable.

1. Under Secretary (Administration), Ministry of Information and Broadcasting —Chairman
2. Under Secretary, Department of Women and Child Development —Member
3. Deputy Director (Administration), DG : AIR —Member
4. Section Officer (Administration-IV) —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Halwai-cum-Cook	1* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200—20200+ Grade Pay Rs. 2000	Non-selection	Not applicable
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	Nil	

(10)

(11)

Promotion failing which by Deputation

**Promotion :**

Assistant Halwai-cum-Cook with at least three (3) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1900.

**Deputation :**

Officers of the Central Government—

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with at least three (3) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1900; and
- (b) Possessing the following qualifications and experience :
  - (i) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering etc.;
  - (ii) Preferably two years experience in a Government Department or Undertaking.

(11)

**Note 1 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 2 :** The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)

(13)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—**

Not applicable.

1. Under Secretary (Administration), Ministry of Information and Broadcasting —Chairman
2. Under Secretary, Department of Women and Child Development —Member
3. Deputy Director (Administration), DG : AIR —Member
4. Section Officer (Administration-IV) —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) Assistant Halwai-cum-Cook	1* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200+ Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	18—25 years, relaxation of age limit to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.

(7)

(8)

(9)

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| <p>(a) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering etc.;</p> <p>(b) relevant experience of one year;</p> <p>(c) a trade skill test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.</p> | <p>No</p> | <p>Two years for direct recruits, Nil for promotees.</p> |
|---|-----------|--|



(7)

**Note :** The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(11)

**Promotion :**

Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1800 with at least three (3) years regular service.

A trade test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the skill of cooking including maintenance of hygiene etc.

**Deputation :**

Officers of the Central Government—

- (i) Holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1800 with at least three (3) years regular service having one (1) year experience as helper to Halwai-cum-Cook.
- (iii) Possessing educational qualifications as prescribed for direct recruits with certificate/diploma in catering.

**Note 1 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 2 :** The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—**

1. Under Secretary (Administration), Ministry of Information and Broadcasting —Chairman
2. Under Secretary, Department of Women and Child Development —Member
3. Deputy Director (Administration), DG : AIR —Member
4. Section Officer (Administration-IV) —Member

(13)

Not applicable.

28/6/95/12-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Clerk	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200+ Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	18—25 years, relaxation of age limit to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission (SSC). In case the direct recruitment is done through SSC, the following not be inserted :— “The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)”.
(7)		(8)		(9)	
(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce; (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).		Age : No Educational Qualifications: 12th Class Pass or equivalent		Two years for direct recruits, Nil for promotees.	

**Note 1:** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

50% by Promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment.

(11)

**Promotion :**

Canteen Attendant with at least three (3) years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1800.

A two week training on Organizational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised Institutes.

**Deputation :**

Officers of the Central Government—

- (i) Holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) Canteen Attendant with at least three (3) years regular service in the PB-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1800 and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.

**Note 1 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 2 :** The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—**

- (i) Under Secretary (Administration), Ministry of Information and Broadcasting —Chairman
- (ii) Under Secretary, Department of Women and Child Development —Member
- (iii) Deputy Director (Administration), DG : AIR —Member
- (iv) Section Officer (Administration-IV) —Member

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) Canteen Attendant (Earlier designated as Tea/Coffee Maker, Bearer and Wash Boy, Services of Safaiwala will henceforth be outsourced.)	7* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 + Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	18—25 years, relaxation of age limit to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years
(10)	(11)	
Direct recruitment	Not applicable	
(12)	(13)	
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—</b>		Not applicable.
(i) Director (Administration), Ministry of Information and Broadcasting	—Chairman	
(ii) Under Secretary (Administration), Ministry of Information and Broadcasting	—Member	
(iii) Deputy Director (Administration), Press Information Bureau	—Member	

[F. No. 18/2/2011-Admn.-IV]  
SARANJIT SINGH BEDI, Under Secy.